

केंद्रीय विद्यालय संगठन (तिनसुकिया संभाग)

सत्रांत परीक्षा -2018-19

विषय-हिंदी

कक्षा-सातवीं

समय-2.30 घंटे

पूर्णांक-80

- निर्देश \* इस प्रश्न पत्र में कुल 10 प्रश्न हैं |  
\*प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है |  
\* इस प्रश्न पत्र में कुल चार खंड हैं- क,ख,ग और घ |  
\*यथासंभव प्रत्येक प्रश्न के उत्तर क्रमशः दीजिये |

खंड- क(अपठित बोध )

प्रश्न 1.निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिये गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2+2+2+1+1=8

पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय-विक्रय पद्धति निस्संदेह इस भारतीय मिट्टी की देन नहीं है। यहाँ शिक्षालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात् परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य रहा है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा-दान-क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान था, परमेश्वर-प्राप्ति का एक साधन था। वही चीज आज पेट पालने का जरिया बन गई है।

- भारतीय शिक्षा-पद्धति की क्या विशेषता थी ?
- गुरु-शिष्य का संबंध कैसा था ?
- गुरु को किसका दर्जा दिया जाता था ?
- शिक्षा देना कैसा कार्य माना जाता था ?
- वर्तमान में शिक्षा का स्वरूप कैसा है ?

प्रश्न 2. निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2+2+1+1+1=7

सतपुड़ा के घने जंगल  
नींद में डूबे हुए-से,  
ऊँघते अनमने जंगल।  
झाड़ ऊँचे और नीचे

चुप खड़े हैं आँख मीचे,  
घास चुप है, काश चुप है

मूक शाल, पलाश चुप है;  
 बन सके तो धँसो इनमें,  
 धँस न पाती हवा जिनमें,  
 सतपुड़ा के घने जंगल  
 नींद में डूबे हुए से  
 ऊँघते, अनमने जंगल  
 सड़े पत्ते, गले पत्ते,  
 हरे पत्ते, जले पत्ते,  
 वन्य पथ को ढँक रहे-से,  
 पंक दल में पले पत्ते,  
 चलो इन पर चल सको तो,  
 दलो इनको दल सको तो,  
 ये घिनौने -घने जंगल ।

- i) सतपुड़ा के जंगल कैसे हैं ?
- (ii) झाड़ कैसे हैं ?
- (iii) जंगल में कौन-कौन चुप हैं ?
- (iv) सतपुड़ा के जंगल में हवा का घुसना भी मुश्किल कहा गया है, क्यों ?
- (v) जंगल में क्या चीज़ घिनौना है ?

**प्रश्न -3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिये । 15**

- i. मेढक पानी में .....कूद गया उपयुक्त अव्यय भरिए ? 1
- ii. साप्ताहिक में कौन सा प्रत्यय है ? 1
- iii. राजा -रानी में कौन सा समास है ? 1
- iv. सिंहासन का संधि -विच्छेद होगा ? 2
- v. 'चिड़िया पर हिलाती है' में पर का क्या अर्थ है ? 1
- vi. सूर्य का दो पर्यायवाची लिखो ? 2
- vii. दातों तले ऊँगली दबाई का वाक्य प्रयोग कीजिये । 1
- viii. प्रत्यय किसे कहते हैं ? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए । 2
- ix. शब्द किसे कहते हैं ? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए । 2
- x. विशेषण और विशेष्य में अंतर बताइए । 2

खंड-ग (पाठ्य-पुस्तक)

प्रश्न -4. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1x5=5  
जगदीशपुर के जंगलों में 'बसुरिया बाबा' नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुँवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएँ बनाईं। वे १८४५ से १८४६ तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है।

- (I) 'बसुरिया बाबा' किस जंगल में रहते थे?
- (II) कुँवर सिंह में देश भक्ति एवं स्वाधीनता की भावना किसने उत्पन्न की?
- (III) कुँवर सिंह कब काफी सक्रिय रहे?
- (IV) किस मेले को गुप्त बैठकों के लिए चुना गया?
- (V) एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है?

प्रश्न5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए- 2x5=10

- i. खानपान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है?
- ii. मोर-मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए?
- iii. धनराज पिल्लै कौन थे उनका योगदान किस खेल में है?
- iv. वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीधर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था?
- v. मिठाईवाला अलग-अलग चीजें क्यों बेचता था ?

प्रश्न6 निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1x5=5

मैं घमंडो में भरा ऐंठा हुआ,  
एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा।  
आ अचानक दूर से उड़ता हुआ,  
एक तिन का आँख में मेरी पड़ा।

मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा,

लाल होकर आँख भी दुखने लगी।

मूँठ देने लोग कपड़े की लगे।

एँठ बेचारी दबे पाँव भगी।

- i. कविता एवं कवि का नाम बताइए।
- ii. व्यक्ति किससे भरा हुआ है?
- iii. आँखों में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई?
- iv. घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आस- पास के लोगों ने क्या किया?
- v. घमंडी की आँख में तिनका कहाँ से आकर पड़ गया था?

**प्रश्न 7 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए- 2x5=10**

- i. कवि विप्लव के माध्यम से क्या चाहता है?
- ii. सावन ऋतु में मीरा को किसके आने का आभास होता है?
- iii. बरसे बदरिया सावन की 'कविता का मूल भाव लिखिए।
- iv. कठपुतली गुस्से में क्यों उबली ?
- v. कठपुतली बाद में क्या सोचने लगी ?

**प्रश्न 8 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए- 2x5=10**

- i. महाभारत की रचना किसने की थी ?
- ii. कौरव और पांडव संख्या में कितने थे ?
- iii. पांडवों की माता का नाम क्या था ?
- iv. जयद्रथ का वध किसने किया था ?
- v. पांडवों का सेनापति कौन था ?

**खंड - घ (रचनात्मक लेखन )**

**प्रश्न 9** अस्वस्थ होने पर चार दिनों के अवकाश हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य को छुट्टी

हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। 5

**प्रश्न 10** किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए - 5

(1) दीपावली (2) अनुशासन (3) मेरा प्रिय खेल

\*\*\*